



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र 1946 (श10)

(सं0 पटना 847) पटना, शुक्रवार, 23 अगस्त 2024

सं० ब0-17/बी0एस0जी0-18/2018-515

वित्त विभाग

संकल्प

23 अगस्त 2024

विषय:- आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं इसकी सॉफ्ट प्रति पेनड्राइव में उपलब्ध कराने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम-131 ज्ञ(ड) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में ।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्ति एवं व्यय का विवरण विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहलाता है। 'वार्षिक वित्तीय विवरण' राज्य सरकार का मुख्य बजट दस्तावेज होता है। इसके अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय विवरण के पूरक सामग्री के रूप में कई अन्य प्रकार की बजट पुस्तिकाएँ भी आवश्यकतानुसार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें कई बजट पुस्तिकाओं को प्रस्तुत किया जाना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व भी है। इन बजट पुस्तिकाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था एवं विकास को प्रदर्शित करने से संबंधित 'आर्थिक सर्वेक्षण' नामक पुस्तिका एवं माननीय वित्त मंत्री के 'बजट भाषण' नामक पुस्तिका भी प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के समक्ष रखी जाती हैं। इन बजट पुस्तिकाओं को शुद्धता के साथ गोपनीयपूर्वक मुद्रण एवं ससमय वित्त विभाग को उपलब्ध होना अति महत्वपूर्ण है।

2. सर्वश्री सरस्वती प्रेस, कोलकाता द्वारा वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण तथा इसकी सॉफ्ट प्रति पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही दिया गया है। इसमें 2017-18 में निर्धारित निविदित शर्तों के अधीन एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए स्वीकृत दर पर 10.02-11.11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु प्रति पुस्तक दर प्रस्तावित किया गया है अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं इसकी सॉफ्ट प्रति पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने से संबंधित स्वीकृत दर पर ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं

इसकी सॉफ्ट प्रति पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने हेतु सरस्वती प्रेस, कोलकाता द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए स्वीकृत दर एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत दर तथा वर्तमान प्रस्तावित दर का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है :-

Table-1

S.L No.	Detail of L-1 per set Budget Book	L-1 Rate for year 2017-18 (in Rs.)	Rate for 2021-22, 2022-23 & 2023-24 (including GST) (in Rs.)	Rate for 2024-25 (including GST) (in Rs.)	Proposed rate for 2025-26 (including GST) (in Rs.)	Percentage increase over 2024-25
1	2	3	4	5	6	7
1.	For one set of Budget Book's text pages (in one colour on 80 gsm paper)	1845.00	1995.00	2195.00	2195.00	NIL
2.	For one set of Budget Book's cover pages (in bi-colour on 300 gsm Art Board)	203.00	220.00	242.00	242.00	NIL
Total	For one set of Budget Book's (other than Budget Speech) Total Rate	2048.00	2215.00	2437.00	2437.00	NIL
3.	For one set of Budget speech's text pages (in one colour on 130 gsm Art paper)	59.00	65.00	72.00	72.00	NIL
4.	For one set of Budget Speech Book's cover page (in four colour on 300 gsm Art board)	4.95	5.20	6.00	6.00	NIL
Total	For one set of Budget Speech Book's Total Rate	63.95	70.20	78.00	78.00	NIL
	Grand Total	2111.95	2285.20	2515.00	2515.00	NIL

नोट:- बजट भाषण पुस्तिका के लिए एक सेट में कुल टेक्स्ट पृष्ठों की संख्या लगभग 100 एवं कवर पेज की संख्या-01 होगी साथ ही अन्य बजट पुस्तिकाओं के एक सेट में अनुमानित टेक्स्ट पृष्ठों की संख्या 4500 तथा कवर पेज की संख्या 59 होगी। पृष्ठों की संख्या घटने या बढ़ने पर उसी अनुपात में मुद्रण मूल्य में वृद्धि या कमी की गणना होगी।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पुस्तिका के मुद्रण में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

3. सरस्वती प्रेस कोलकाता द्वारा पेन ड्राइव में बजट पुस्तिकाओं का सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने हेतु प्रति पेन ड्राइव 195.00 रुपये का प्रस्ताव दिया गया है।

4. बजट से संबंधित सभी पुस्तिकाओं का मुद्रण अत्यंत गोपनीय ढंग से एवं तय समय सीमा में करा कर विधान मंडल में उपस्थापित करना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। बजट के आंकड़ों की शुद्धता एवं स्पष्टता भी महत्वपूर्ण है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय बजट पुस्तिकाओं को अंतिम रूप देने एवं उसे विधान मंडल को उपलब्ध कराने के बीच का समय अत्यल्प/अत्यंत कम रहता है। प्रत्येक वर्ष निविदा के माध्यम से बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं पेन ड्राइव में इसे उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही किसी दक्ष प्रतिष्ठान के क्वालीफाई नहीं करने की स्थिति में बजट पुस्तिकाओं का गुणवत्तापूर्ण मुद्रण कार्य ससमय सम्पन्न नहीं होने की आशंका बनी रहती है।

5. उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य की बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण विगत 24 वर्षों से अधिक समय से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के लोक उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लि०, कोलकाता द्वारा किया जाता रहा है। यह प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए मुद्रण-कार्य गोपनीय ढंग से एवं समयबद्ध तरीके से करते हुए बजट पुस्तिकाएँ वित्त विभाग को सुरक्षित रूप से ससमय उपलब्ध कराते आ रहा है।

6. उक्त परिस्थिति में बजट निर्माण के ससमय निविदा/पुनर्निविदा की प्रक्रियात्मक जटिलताओं में लगने वाले समय की बचत और विधान मंडल में बजट पुस्तिकाओं/पेन ड्राइव (सॉफ्ट कॉपी) का ससमय उपस्थापन की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु निविदित शर्तों के अधीन टेबल-1 के कॉलम-2 में अंकित बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए कॉलम-6 में अंकित दर पर एवं पेन ड्राइव (सॉफ्ट कॉपी) के लिए कॉलम-3 में अंकित प्रस्तावित दर पर आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं पेन ड्राइव (सॉफ्ट कॉपी) हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के लोक उपक्रम सर्वश्री सरस्वती प्रेस लि०, कोलकाता को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 131 ज्ञ(ड) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत किया जाता है।

7. इस प्रस्ताव को दिनांक-21.08.2024 के मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं०-24 के रूप में सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव।

!—————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 847-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>